


कोरोना वायरस से न घबराएं, खुद बचें और सबको बचाएं

भारत आगमन पर आपका स्वागत है। अगर आपको खाँसी, बुखार के लक्षण हों, या साँस लेने में तकलीफ हो, तो तुरंत चेक पोस्ट पर उपस्थित स्वास्थ्य विभाग की टीम से संपर्क करें।



1

खांसने और छींकने पर मुँह और नाक को रुमाल या टिश्यू से ढकें



2

बार-बार साबुन और पानी से हाथ धोएं



3

जिन व्यक्तियों को खाँसी, साँस लेने में परेशानी या बुखार हो, उनके निकट संपर्क से बचें और दूरी बनाएं



4

अपनी आँख, नाक और मुँह को छूने से बचें

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश की टोलफ्री हेल्पलाइन

1800-180-5145

अधिक जानकारी एवं संदेश यहां से प्राप्त करें:

www.mohfw.gov.in, <http://ncdc.gov.in/>

तकनीकी सहयोग : संचारी रोग इकाई, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार